



आवर्ती फ्लेक्सी जमा (Recurring Flexi Deposits) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली आवर्ती फ्लेक्सी जमा योजनाओं के क्या लाभ हैं?

शिवालिक बैंक की आवर्ती फ्लेक्सी जमा (RFD) योजनाएं हर महीने एक निश्चित राशि को व्यवस्थित रूप से निवेश करने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे आवश्यकता अनुसार एक राशि (कोष) एकत्रित की जा सकती है। शिवालिक बैंक अपनी आवर्ती फ्लेक्सी जमा पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करता है, जिसमें ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित (compounded) किया जाता है ताकि अधिकतम रिटर्न प्राप्त हो सके।

2. आवर्ती फ्लेक्सी जमा की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या है?

शिवालिक बैंक आवर्ती फ्लेक्सी जमा के लिए 6 महीने से 120 महीने तक की अनुकूलनीय अवधि प्रदान करता है।

3. आवर्ती फ्लेक्सी जमा शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि और अधिकतम राशि सीमा क्या है ?

न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि ₹ 100 है और अधिकतम प्रारंभिक जमा राशि ₹ 1 लाख है।

4. आवर्ती फ्लेक्सी जमा खाते में टॉप-अप सुविधा क्या है?

टॉप-अप सुविधा उसी आवर्ती फ्लेक्सी जमा खाते में उपलब्ध है, जसमें आप अंतरिम हस्तांतरण के माध्यम से अपनी योगदान राशि को बढ़ा सकते हैं। यह टॉप-अप न्यूनतम ₹ 100 और अधिकतम प्रारंभिक जमा राशि के 25 गुना तक किया जा सकता है।

5. मैं आवर्ती फ्लेक्सी जमा खाते की ब्याज दरें कहाँ देख सकता/सकती हूँ?

जमा दरें बैंक की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं और हमारे शाखाओं में भी प्रदर्शित की जाती हैं। दरें अभी जांचने के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं। [click here](#).

6. क्या बैंक वरिष्ठ नागरिकों की जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है?

हाँ, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आवर्ती फ्लेक्सी जमा पर नियमित दरों के ऊपर अतिरिक्त 0.25% अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान किया जाता है।

7. क्या शिवालिक बैंक में बुक की गई आवर्ती फ्लेक्सी जमा पर पूर्व- परिपक्वता आहरण (premature withdrawal) की सुविधा उपलब्ध है?

हाँ, शिवालिक बैंक में बुक की गई आवर्ती फ्लेक्सी जमा पर पूर्व- परिपक्वता आहरण (Premature Withdrawal) की सुविधा उपलब्ध है।

8. यदि आवर्ती फ्लेक्सी जमा को परिपक्वता (maturity) से पहले निकाला जाता है, तो तो देय ब्याज दर क्या होगी?

ब्याज दर देय होगी उस अवशेष के अनुसार, जितने समय के लिए जमा राशि बैंक के पास रही है, न कि अनुबंधित (contracted) दर पर। इसके साथ ही, पूर्व- परिपक्वता आहरण (premature withdrawal) पर 1% की पेनल्टी घटाकर ब्याज दिया जाएगा।

9. क्या आवर्ती फ्लेक्सी जमा की आंशिक निकासी (partial withdrawal) की अनुमति है?

नहीं, आवर्ती फ्लेक्सी जमा की आंशिक निकासी की अनुमति नहीं है।